

Roll No.

[2]

E-125

E-125

M. Com. (Fourth Semester) (Main/ATKT)

EXAMINATION, May-June, 2021

[Optional Group—(C) : Banking and Insurance]

BANKING INSTITUTION IN INDIA

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 80

नोट : निर्देशानुसार सभी खण्डों के उत्तर दीजिए।

Attempt all Sections as directed.

खण्ड—अ

प्रत्येक 1

(Section—A)

वस्तुनिष्ठ/बहुविकल्पीय प्रश्न

(Objective/Multiple Choice Questions)

नोट : सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

Attempt all questions.

सही उत्तर का चयन कीजिए :

Choose the correct answer :

1. न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज (एन. वाई. एस. ई.) में सूचीबद्ध भारत का पहला बैंक कौन-सा है ?

(अ) एस. बी. आई. बैंक

(ब) एच. डी. एफ. सी. बैंक

(स) आई. सी. आई. सी. आई. बैंक

(द) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया

Which is the first bank in India to be listed on the New York Stock Exchange (NYSE) ?

(a) SBI Bank

(b) HDFC Bank

(c) ICICI Bank

(d) Central Bank of India

2. भारत में पहला बैंक वर्ष में शुरू किया गया था।

(अ) 1825

(ब) 1786

(स) 1912

(द) उपर्युक्त में से कोई नहीं

The first bank in India was started in the year

(a) 1825

(b) 1786

(c) 1912

(d) None of the above

P. T. O.

3. भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है ?

- (अ) दिल्ली
- (ब) कोलकाता
- (स) चेन्नई
- (द) मुम्बई

Where is the headquarters of RBI located ?

- (a) Delhi
- (b) Kolkata
- (c) Chennai
- (d) Mumbai

4. गुणात्मक ऋण नियंत्रण तन्त्र कौन-सा है ?

- (अ) साख राशनिंग
- (ब) खुले बाजार की क्रियाएँ
- (स) बैंक दर नीति
- (द) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Which is the qualitative credit control mechanism ?

- (a) Credit rationing
- (b) Open market operations
- (c) Bank rate policy
- (d) None of the above

5. बैंकिंग विनियमन अधिनियम वर्ष में पारित किया गया था।

- (अ) 1956
- (ब) 1972
- (स) 1949
- (द) 1932

Banking Regulation Act was passed in the year

- (a) 1956
- (b) 1972
- (c) 1949
- (d) 1932

6. देश का केन्द्रीय बैंक है :

- (अ) RBI
- (ब) RRB
- (स) SBI
- (द) उपर्युक्त में से कोई नहीं

The Central Bank of the country is :

- (a) RBI
- (b) RRB
- (c) SBI
- (d) None of the above

7. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक योजना इस वर्ष में शुरू की गई थी :

- (अ) 1946
- (ब) 1969
- (स) 1975
- (द) 1949

Regional Rural Bank Scheme were started in the year :

- (a) 1946
- (b) 1969
- (c) 1975
- (d) 1949

8. MICR एक अंकीय कोड होता है।

- (अ) 9
- (ब) 11
- (स) 7
- (द) 13

MICR is a digit code.

- (a) 9
- (b) 11
- (c) 7
- (d) 13

9. बैंकिंग लोकपाल योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी ?

- (अ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- (ब) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
- (स) भारतीय रिजर्व बैंक
- (द) उपर्युक्त में से कोई नहीं

The Banking Ombudsman Scheme was introduced by :

- (a) Regional Rural Bank
- (b) State Bank of India
- (c) Reserve Bank of India
- (d) None of the above

10. निम्नलिखित में से कौन-सा भारत के संगठित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं करता है ?

- (अ) राष्ट्रीयकृत बैंक
- (ब) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- (स) सहकारी बैंक
- (द) साहूकार

Which of the following is not an organized sector in India ?

- (a) Nationalised Banks
- (b) Regional Rural Banks
- (c) Cooperative Banks
- (d) Moneylenders

11. रेपो दर ब्याज की वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अल्पकाल में :

- (अ) केन्द्रीय सरकार से ऋण लेता है।
- (ब) केन्द्रीय सरकार को ऋण देता है।
- (स) वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेता है।
- (द) वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है।

Repo Rate is the rate at which Reserve Bank of India, in short-run :

- (a) Borrows money from Central Government.
- (b) Lends money to Central Government.
- (c) Borrows money from Commercial Banks.
- (d) Lends money to Commercial Banks.

12. 'नाबार्ड' का मुख्यालय कहाँ है ?

- (अ) नई दिल्ली
- (ब) मुम्बई
- (स) लखनऊ
- (द) कोलकाता

Where is the headquarters of NABARD ?

- (a) New Delhi
- (b) Mumbai
- (c) Lucknow
- (d) Kolkata

13. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना हुई :

- (अ) 1946 को
- (ब) 1956 को
- (स) 1948 को
- (द) 1952 को

Industrial Finance Corporation of India was established in :

- (a) 1946
- (b) 1956
- (c) 1948
- (d) 1952

14. सिडबी की स्थापना की गई :

- (अ) 2 अप्रैल, 1990 में
- (ब) 2 अप्रैल, 1992 में
- (स) 2 मई, 1990 में
- (द) 2 मई, 1994 में

SIDBI was established on :

- (a) 2 April, 1990
- (b) 2 April, 1992
- (c) 2 May, 1990
- (d) 2 May, 1994

15. ई. सी. जी. सी. की स्थापना हुई :

- (अ) 1957 में
- (ब) 1947 में
- (स) 1960 में
- (द) 1949 में

ECGC was established in :

- (a) 1957
- (b) 1947
- (c) 1960
- (d) 1949

16. जुलाई 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया ?

- (अ) 6
- (ब) 14
- (स) 21
- (द) 9

How many banks were nationalised in July 1969 ?

- (a) 6
- (b) 14
- (c) 21
- (d) 9

17. नरसिंहम समिति की दूसरी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई ?

- (अ) 1998
- (ब) 1997
- (स) 1995
- (द) 1991

In which year did Narsimham Committee present their 2nd Report ?

- (a) 1998
- (b) 1997
- (c) 1995
- (d) 1991

18. ग्राहक सेवा सुधार हेतु गठित समिति थी :

- (अ) नरसिंहम समिति
- (ब) चक्रवर्ती समिति
- (स) गोईपोरिया समिति
- (द) वर्मा समिति

The committee constituted for the improvement of customer service was :

- (a) Narsimham Committee
- (b) Chakraworthy Committee
- (c) Goiporia Committee
- (d) Verma Committee

19. 'नाबार्ड' के वर्तमान अध्यक्ष हैं :

- (अ) डॉ. जी. आर. चिंतला
- (ब) श्री शक्तिकांत दास
- (स) श्री एन. के. सिंह
- (द) श्री रघुनाथ

The present chairman of NABARD is :

- (a) Dr. G. R. Chintala
- (b) Shri Shaktikant Das
- (c) Shri N. K. Singh
- (d) Shri Raghunath

20. भारत में बैंकिंग प्रणाली का प्रमुख नियामक है :

- (अ) आर. बी. आई.
- (ब) ए. एम. एफ. आई.
- (स) आई. आर. डी. ए.
- (द) सेबी

The main regulator of the banking system in India is :

- (a) RBI
- (b) AMFI
- (c) IRDA
- (d) SEBI

P. T. O.

खण्ड—ब

प्रत्येक 2

(Section—B)

अति लघु उत्तरीय प्रश्न

(Very Short Answer Type Questions)

नोट : सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

Attempt all questions.

1. व्यावसायिक बैंक से क्या तात्पर्य है ?

What do you understand by Commercial Bank ?

2. विकास बैंकों की कोई दो विशेषताएँ बताइए।

State any two features of Development Banks.

3. आई. सी. आई. सी. आई. का पूरा नाम लिखिए।

Write full name of ICICI.

4. सहकारी बैंक से आप क्या समझते हैं ?

What do you understand by Cooperative Bank ?

5. NBFC क्या है ?

What is NBFC ?

6. रिजर्व बैंक की साख नियंत्रण विधियों को बताइये।

Give the credit control methods of RBI.

7. कृषि बैंकिंग से आप क्या समझते हैं ?

What do you mean by Agriculture Banking ?

8. विनियोग बैंकिंग क्या है ?

What is Investment Banking ?

खण्ड—स

प्रत्येक 3

(Section—C)

लघु उत्तरीय प्रश्न

(Short Answer Type Questions)

नोट : सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

Attempt all questions.

1. केन्द्रीय सहकारी बैंक क्या हैं ?

What are Central Cooperative Banks ?

2. 'नाबार्ड' के कार्यों को संक्षेप में समझाइये।

Explain briefly the function of NABARD.

3. बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

Write a short note on Banking Sector Reforms.

4. क्या भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना उचित था ? समझाइए।

Was it fair to nationalise banks in India ? Explain.

5. बैंकिंग और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान में अन्तर स्पष्ट कीजिए।

Difference between Banking and Non-Banking Financial Companies (NBFC).

P. T. O.

6. SIDBI का क्या कार्य है ?

What is the function of SIDBI ?

7. ब्रिज लोन क्या है ?

What is Bridge Loan ?

8. स्वदेशी बैंकर से आप क्या समझते हैं ?

What do you understand by Indigenous Bankers ?

खण्ड—द

प्रत्येक 5

(Section—D)

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

(Long Answer Type Questions)

नोट : सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

Attempt all questions.

1. साख नियंत्रण का क्या अभिप्राय है ? केन्द्रीय बैंक द्वारा अपनायी गयी साख नियंत्रण की प्रमुख विधियों को संक्षेप में समझाइये।

What is the meaning of credit control ? Explain briefly the methods adopted by Central Bank to control credit.

2. नरसिंहम समिति, 1998 की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं ?

What are the main recommendations of Narsimham Committee, 1998 ?

3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा सहकारी बैंक में अन्तर स्पष्ट कीजिए।

Clarify the difference between Regional Rural Bank and Co-operative Bank.

4. बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 का इतिहास संक्षेप में लिखिए।

Write the brief history of Banking Regulation Act, 1949.

अथवा

(Or)

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के मुख्य उद्देश्यों एवं संगठन की व्याख्या कीजिए।

Explain the main objectives and organization of Reserve Bank of India.